

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 02-07-2021

थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त को धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2021 को धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत एक अभियुक्त को मु0अ0सं0 137/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रामवेलास पुत्र कुंजी केवट साकिन खखरा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
बरामदगी का विवरण-10 लीटर कच्ची देशी शराब मय शराब बनाने वाले उपकरण ड्रम, भदेला, नलकी व थाली अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुंवर थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
02. हे0का0 सुरेश वरुण थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
03. का0 रामसेवक यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर
04. का0 अर्जुन यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 02-07-2021

परिक्षेत्रीय कार्यालय जनपद बस्ती

दिनांक 02 जुलाई 2021 को पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार रॉय द्वारा पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत व शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु बस्ती से थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर तक जाने वाले सड़क मार्ग पर भ्रमण करते हुये सुरक्षा व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था का जायजा लिया गया ।

इस दौरान महोदय द्वारा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर का औचक निरीक्षण किया गया तथा थाना परिसर में बने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर नियुक्त महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये कार्यालय के अभिलेखों के रख-रखाव, सीसीटीएनएस कम्प्यूटर कक्ष व थाने पर लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति चेक की गयी व आगन्तुक रजिस्टर, कोविड-19 हेल्प डेस्क, माल के रख-रखाव के संबंध में मालखाना रजिस्टर का निरीक्षण किया गया , साथ ही

साथ हवालात का निरीक्षण किया गया । इसी क्रम में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु संबंधित थाना प्रभारी को बैंक ड्यूटी, रात्रि चेकिंग /पिकेट ड्यूटी/बैरियर ड्यूटी/रात्रि कर्फ्यू आदि के संबंध में विशेष सक्रियता रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

प्रभारी निरीक्षक

मीडिया/ सोशल मीडिया सेल

पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक कार्यालय

जनपद- बरती

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 02-07-2021

भाडे पर हत्या कराने/करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व श्रीकृष्ण देव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना को0 सि0नगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही -

आज दिनांक 02.07.2021 को मैं प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के थाना स्थानीय से रवाना होकर मु0अ0सं0-134/2021 धारा 34/147/302/201/120 बी भा0द0वि0 में वाछिंत अभियुक्तगण तिवारी लोध पुत्र गौरी शंकर ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सि0नगर, उमेश तिवारी पुत्र विशम्भर तिवारी निवासी झंगटी थाना मोहाना जनपद सि0नगर, विजय कुमार उर्फ विजयी पुत्र हंसराज निवासी बेल्टीकर टोला सिद्धनगर थाना मोहाना जनपद सि0नगर हाल मुकाम ग्राम विजगौली थाना विचउवापुर जिला रुपन्देही नेपाल, की पतारसी सुरागरसी करते गिरफ्तारी व दबिश हेतु ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सि0नगर जा रहा था कि थाना मोहाना पर थानाध्यक्ष श्री जय प्रकाश दूबे मिले जिनसे मकसद गिरफ्तारी व दबिश बताकर थानाध्यक्ष जय प्रकाश दूबे उनके हमराह हे0का0 सुनील कुमार दूबे ,हे0का0 दिनेश यादव मय सरकारी वाहन यूपी55 जी 0285 सहित साथ हमराह लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व दबिश हेतु ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सि0नगर जा रहा था कि सड्डा तिराहे के पहले मुखबिर खास मिला तथा बताया कि साहब आप के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- विजय कुमार उर्फ विजयी पुत्र हंसराज निवासी बेल्टीकर टोला सिद्धनगर थाना मोहाना जनपद सि0नगर हाल मुकाम ग्राम विजगौली थाना विचउवापुर जिला रुपन्देही नेपाल ,2. तिवारी लोध पुत्र

गौरी शंकर ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सि०नगर, सड्डा तिराहा थाना मोहाना जिला सि०नगर पर मौजूद है। मैं उनको तिराहे पर खड़ा देखा हूँ जो सि०नगर जानें के लिए अपने किसी सहयोगी व रिश्तेदार का इंतजार कर रहे हैं। जो पैसा लेकर आने वाला है। क्योंकि घटना के बाद ये लोग भगे थे। जिनका पैसा खत्म हो गया है। हाजिर होने के लिए वकील के पास न्यायालय सि०नगर जा रहे हैं। यदि जल्दी चला जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना विश्वास करके मय प्र०नि० मय हमराहियान थानाध्यक्ष मोहाना व उनके हमराहियान के साथ सड्डा तिराहे के निकट पहुंच गये। दोनो सरकारी वाहन तिराहे से पहले ही आड़ में खड़ी करके मुखबिर खास को लेकर तिराहे की तरफ आगे बढ़ा कि मुखबिर ने दूर से ही दोनो खड़े लोगो का पहचान कर बताया और वहां से चला गया। हम लोग आड़ लेते हुए छिपते छिपाते खड़े व्यक्तियों के नजदीक पहुंचकर एकाएक चारो तरफ से घेर कर समय 10.35 पर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्रमशः नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विजय कुमार उर्फ विजयी पुत्र हंसराज निवासी बेल्टीकर टोला सिद्धनगर थाना मोहाना जनपद सि०नगर हाल मुकाम ग्राम विजगौली थाना विचउवापुर जिला रुपन्देही नेपाल, तिवारी लोध पुत्र गौरी शंकर ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सि०नगर बताया दोनो अभियुक्तों को कारण गिरफ्तारी बताते हुए उनके विरुद्ध लगे धाराओं का अपराध का बोध कराते हुए धारा 50 सीआरपीसी के प्राविधानों व मा० सर्वोच्च न्यायालय, मा० मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देने हेतु थानाध्यक्ष मोहाना को बताया गया कि अपने क्षेत्र में ग्राम पिपरहवा में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना दे अभियुक्तगण की मौके पर जामातलाशी समक्ष हमराहियान फोर्स ली गयी तो उनके पास से अभियुक्त विजय कुमार उर्फ विजयी के पास से नकद 210 रूपये व तिवारी लोध के पास से 185 रूपये नकद बरामद हुआ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता.....

- 1-तिवारी लोध पुत्र गौरी शंकर ग्राम पिपरहवा थाना मोहाना जनपद सि०नगर,
- 2-विजय कुमार उर्फ विजयी पुत्र हंसराज निवासी बेल्टीकर टोला सिद्धनगर थाना मोहाना जनपद सि०नगर हाल मुकाम ग्राम विजगौली थाना विचउवापुर जिला रुपन्देही नेपाल

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण


- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्णदेव सिंह थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर
- 2-थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
- 3- उ०नि० श्री अजयनाथ कनौजियाथाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर
- 4-उ०नि० श्री रामभवन पासवानथाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर
- 5-हे०का० राजेन्द्र त्रिपाठीथाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर
- 6-का० संदीप यादवथाना को०सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 02-07-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 02-07-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 770 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 249 वाहनों का चालान कर ₹ 2,69,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02-07-2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बीट क्षेत्र में निष्ठा व लगन से कार्य करने वाले आरक्षी धमेन्द्र सिंह जो वर्तमान समय में थाना पथरा बाजार पर नियुक्त है को माह जून वर्ष-2021 हेतु जनपद स्तर पर सर्वोत्तम बीट पुलिस अधिकारी के रूप में चुना गया है।



#siddharthnagpol “चोरी करके भाग रहे चोरो के विरुद्ध उसका पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही”। @Uppolice @AdgGkr @digbasti @AnilRai_IPS @dmsid1 @SpAdditional @SureshAddlSpSdr #UPPolice

#siddharthnagpol यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम मे 471 वाहनों का ई-चालान कर ₹ 4,93,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया। @Uppolice @AdgGkr @digbasti @AnilRai_IPS @dmsid1 @SpAdditional @SureshAddlSpSdr #UPPolice

#siddharthnagpol #SP_SDR के निर्देशानुसार थाना खेसरहा पुलिस बल द्वारा थानाक्षेत्र पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो को चेक किया गया @Uppolice @AdgGkr @digbasti @AnilRai_IPS @dmsid1 @SpAdditional @SureshAddlSpSdr #UPPolice

आज दिनांक 30-06-2021 को जनपद सिद्धार्थनगर में प्रकाशित #समाचार पत्र में #siddharthnagpol से सम्बन्धित समाचार। @Uppolice @AdgGkr @digbasti @AnilRai_IPS @dmsid1 @SpAdditional @SureshAddlSpSdr #UPPolice

